Date: 01.11.2019

To

Corporate Relationship Department BSE Limited

1st Floor, Rotunda Building
P-J Towers, Dalal Street,
M umbai-400 001.

To

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051.

Dear Sir,

Subject: Newspaper Advertisement for Board Meeting scheduled to be held on Friday, 8^{th} November, 2019.

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Scrip Code: BSE- 541700/Stock Symbol: NSE-TCNSBRANDS

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find herewith, enclosed copy of newspaper advertisement with respect to the Board Meeting scheduled to be held on Friday, 8th November, 2019 published in the following newspapers:

- 1. Business Standard-English on 1st November, 2019
- 2. Business Standard-Hindi on 1st November, 2019

This is for your information and necessary records.

Thanking you, Yours faithfully,

For TCNS Clothing Co. Lim

Piyush Asija

Company Secretary & Compliance Officer.





SUNSHIELD CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: Equinox Business Park, Tower-4, 9th Floor, unit no. 903, LBS Marg, Kurla (west) Mumbai 400070 E-mail: investor.sunshield@solvay.com Website : www.solvayindia.in

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulations 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, Notice is hereby given that the Meeting o Board of Directors of Company is scheduled to be held on Wednesday, the 13th November 2019, in Mumbai interalia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter and half-year ended 30th September 2019. The aforesaid intimation can also be accessed on Company's website a www.solvayindia.in and BSE Limited website at www.bseindia.com

By Orders of the Board For Sunshield Chemicals Limited

Mumbai, 31st October 2019

Amit Kumashi Company Secretary



Regd. Office: 8/1 Lal Bazar Street, Bikaner Building, 3rd Floor, Kolkata - 700 001 Phone No.: +91-33-2243 5053 E-mail: info@malcoindia.co.in: Website: www.manaksiaaluminium.com

Corporate Identity Number: L27100WB2010PLC144405 NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 8th November, 2019, at the Registered Office of the Company inter-alia to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2019.

This information is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed and is also available on the website of the Company, viz, www.manaksiaaluminium.com.

For MANAKSIA ALUMINIUM COMPANY LIMITED Place: Kolkata Vivek Jain (Company Secretary) Date: 31st October, 2019

SHIVOM INVESTMENT & CONSULTANCY LIMITED

Regd. Off. Shaniya Enclave, 4th Floor, V. P. Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056 Email ID: shivomicl@gmail.com Website: www.shivominvestmentconsultancyltd.in CIN: L74140MH1990PLC300881

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Intimation is hereby given that meeting of Board of directors of SHIVOM INVESTMENT & CONSULTANCY LIMITED, is scheduled to be, held on Thursday, 14th November, 2019, at 4.00 p.m. at its Registered office situated at-8, Shaniya Enclave, 4th Floor, VP Road, Vile Parle, West Mumbai Maharashtra, 400056, for the approval of Quarterly Un-Audited Financial Results of the company as per Regulation 33 of SERI **Financial Results,** of the company, as per Regulation-33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations) for the **quarter ended on 30th September 2019.**

DATE- 31/10/2019 PLACE- MUMBAI.

By and on Behalf of the Board of Directors. For **SHIVOM INVESTMENT & CONSULTANCY LIMITED**

Sd/-Varun Pravinchandra Aghara (Managing Director) DIN- 03046013



Repco Home Finance Limited CIN- L65922TN2000PLC044655

Registered Office: Repco Tower, No. 33 North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017 Corporate Office: Third Floor, Alexander Square, Old No.34 & 35,

New No.2, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai-600032 Ph: (044) - 4210 6650 Fax: (044) - 4210 6651; E-mail: cs@repcohome.com | Website: www.repcohome.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 12, 2019, at the Corporate Office, inter alia to consider and approve the un-audited financial results of the Company for the quarter ended September 30, 2019.

copy of the Notice and the financial results on available on the Company's website at www.repcohome.com and also on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com

Place: Chennai Date: 31.10.2019 For Repco Home Finance Limited Sd/- K.Prabhu **Company Secretary**



stered Office: Unit No. 112, F/F Rectangle 1, D-4, Saket, District Centre New Delhi-17 Corporate Office: 119. New Mangalapuri, W-House, Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi-110030, **Tel No**: 011-42193193, **Fax No**. 011-42193194 Website: www.wforwoman.com; Email id: investors@tcnsclothing.com CIN: L99999DL1997PLC090978

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday**, 8° **November**, **2019**, inter-alia to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results for second quarter/six months ended on 30th September, 2019.

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and the Code of Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders of Unpublished Price Sensitive Information, the trading window for dealing in the securities of the Company has already closed from 1st October, 2019, will continue to be closed till 10th November, 2019 (both days inclusive) for insiders and connected persons (including their dependants and immediate relatives).

The said notice is also available on the Website of the company at www.wforwoman com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For TCNS Clothing Co. Limited

Piyush Asija

Place: New Delhi Date: 01st November, 2019

Company Secretary and Compliance Officer



Regd. Office: 8/1 Lal Bazar Street, Bikaner Building, 3rd Floor, Kolkata-700 001 Phone No.: +91-33-2243 5053

E-mail: infomcmil@manaksia.com; Website: www.manaksiacoatedmetals.com Corporate Identity Number: L27100WB2010PLC144409

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 8th November, 2019, at the Registered Office of the Company inter-alia to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results (both Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2019.

This information is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed and is also available on the website of the Company, viz, www.manaksiacoatedmetals.com.

For MANAKSIA COATED METALS & INDUSTRIES LIMITED Place: Kolkata Sailia Gupta (Company Secretary) Date: 31st October, 2019

TANLA SOLUTIONS LIMITED tanla 🖬

CIN: L7220TG1995PLC021262

Regd. Office: Tanla Technology Centre, Hitech City Road, Madhapur,
Hyderabad - 500 081. Tel: 040-40099999; E-mail: investorhelp@tanla.com

Notice of the Meeting of the Board of Directors

Pursuant to regulation 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on SATURDAY, the 9th day of November, 2019 at the registered office, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter & half year ended September 30, 2019.

The said information is also available on the company's website at www.tanla.com and on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Tanla Solutions Limited Place: Hvderabad

Date: October 31, 2019 VP-Legal & Secretarial

एसजेवीएन लिमिटेड : एवं हिमाचल प्रवेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) SJVN Limited t Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) A Mini Ratma & Schedule 'A' PSU CIN-L40101HP1988 GOI 008409

E-Tender No.: DCB-CCD-CP-756-01

On behalf of SJVN Ltd., online open Tenders (e-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) are invited for 'Appointment of Consultant for Preparation of Corporate Plan of SJVN (2019-40)'.

For details, visit websites www.sjvn.nic.in, https://sjvn.abcprocure.com and www.eprocure.gov.in w.e.f. 31.10.2019 (1800 Hrs). Last date for bid submission is 29.11.2019 (1300 Hrs). Amendments, if any, shall be issued on websites onlỳ.

For and on behalf of SJVN Ltd. HOD (Civil Contracts) SJVN Corporate Headquarters, Shanan

Shimla-171006 (H.P.), E-mail: civilcontract@sjvn.nic.in SAVE ENERGY FOR THE BENEFIT OF THE SELF AND THE NATION

DECCAN CEMENTS LIMITED

CIN: L26942TG1979PLC002500

Regd. Office: "Deccan Chambers", 6-3-666/B, Somajiguda, Hyderabad – 500 082

Phone No.040-2331168, Fax No.040-233118366

E-mail: info@deccancements.com; website: www.deccancements.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 11th November, 2019 at the Registered office of the Company, inter alia, to consider

and approve, the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and

The information contained in this Notice is also available on the Company's website www.deccancements.com as also on the Stock Exchange websites viz.

BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited:

McLEOD RUSSEL

McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L51109WB1998PLC087076
Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700 001
Telephone: 033-2210-1221. Fax: 91-33-2248-8114/6265
Website: www.mcleodrussel.com. E-mail: investors@mcleodrussel.com

NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of McLeod Russel India Limited ('the Company') will be held on

Thursday, 14th November, 2019 at the Registered Office of the Company inter alia to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter / half year ended 30th September, 2019.

This Notice will also be made available on the websites of the stock exchanges www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com as also on the

CAPRI GLOBAL

CAPITAL LIMITED

Unlocking potentials, Empowering people

CIN L65921MH1994PLC173469

Regd. office: 502, Tower A, Peninsula Business Park
Senapati Bapat Marg,Lower Parel,Mumbai 400013

• Tel: 91 22 43548100; Fax: 91 22 40888160

Email: compliance.officer@capriglobal.in, Website: www.capriglobal.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, November 8, 2019, inter-alia, to consider and approve the

Unaudited and Consolidated Financial Results for the quarter & six months ended on

September 30, 2019. The said notice may be accessed on the Company's website at

www.capriglobal.in and also on the stock exchange websites at www.nseindia.com and

website of the Company, www.mcleodrussel.com

Place : Kolkata Date : 31st October, 2019

ww.bseindia.com.

Date: October 31, 2019

HARITA LIMITED,

t is informed that the Company:

Place: Chennai

Date: 31st October 2019

a Company incorporated under the provisions of the

Place: Mumbai

Half year ended 30th September, 2019.

www.nseindia.com.

Place: Hyderabad Date: 31st October, 2019

nesco **NESCO LIMITED**

Regd Office: Nesco Center, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063. Tel: 022 66450123, Fax: 022 66450101 Website: www.nesco.in Email: companysecretary@nesco.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and othe applicable Regulations, if any, of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, that meeting of the Board of Directors of the Company is schedulet to be held on Monday, 11 November 2019, inter-alia, to consider and approve Unauditet Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and hal year ended 30 Sentember 2019. ear ended 30 September 2019.

The above information is also available on the Company's website at http://www.nesco.in/ and also on the website of BSE Limited at http://www.nseindia.com/ and on the website of National Stock Exchange of India Limited at http://www.nseindia.com/. For Nesco Limited

Mumbai 31 October 2019

Sd/-Jinal J. Shah Company Secretary and Compliance Officer

इलाहाबाद बैक **ALLAHABAD BANK** A tradition of trust

Head Office: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001 Notice

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Bank is scheduled to be held on Friday, the 08th November 2019, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Bank for the second quarter and half year period of FY 2019-20 ended on September 30, 2019.

For detail, please log on to Bank's website www.allahabadbank.in and/ or website of Stock Exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com.

Place: Kolkata Date: 31.10.2019

Sanjay Aggarwal General Manager (F&A) and CFO

DRAFT OF ADVERTISEMENT 'D'

N.B: Text in italics shows within [] is not to be included in the advertisement. Kindly fill the relevant details NOTICE

[Tata Power Company Ltd]

Registered Office: [Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai, Maharashtra, 400001] NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the under mentioned securities of the Company have been lost/Misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

TATA MOTORS - ORDINARY SHARES OF RS. 1/- EACH



DREDGING CORPORATION OF INDIA LIMITED

Pursuant to Clause 29 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors will be held on Friday, the 8th November, 2019 to consider and take on record the Un-audited financial results of the company for the quarter/period ended 30/09/2019. The Board Meeting Notice is available on the Stock Exchange Websites - www.nseindia.com, www.bseindia.com, www.cseindia.com and on the Company website

Visakhapatnam (K. Aswini Sreekanth) Company Secretary Date : 01/11/19





Website: www.rossellindia.com Website: www.rossellindia.com E-mail : corporate@rosselltea.com Registered Office : Jindal Towers, Block 'B', 4th Floor 21/1A/3, Darga Road, Kolkata-700 017 Phone : 033 4061 6069, Fax : 033 22903035

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 12th November, 2019, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended 30th September, 2019, prepared in

website at www.rossellindia.com and may also be accessed on the Stock Exchange's website at $\underline{www.bseindia.com}$, $\underline{www.nseindia.com}$ and www.cse-india.com.

K I C METALIKS LIMITED

Dt.: 25.10.2019

EXPLORATION, GEO-TECHNICAL

STUDIES FOR BRIDGES, DESIGN AND

PREPARATION OF GENERAL ARRANGEMENT DRAWING,

PREPARATION OF PLAN FOR FOREST DIVERSION PROPOSAL ETC. IN CONNECTION WITH SETTING UP OF

ELECTRIC LOCO PERIODICAL OVERHAULING (POH) WORKSHOP

NEAR NORLA ROAD RAILWAY STATION IN KALAHANDI DISTRICT OF

SAMBALPUR DIVISION OF EAST

Approx cost of the work: ₹ 55.13 lakhs, EMD: ₹ 1,10,300/-, Cost of Tender document: ₹ 5,900/-, Completion period of the work:

Tender closing date & time : at 1200 hrs. of 18.11.2019.

No manual offers sent by Post/Courier/Fax or

n person shall be accepted against such tenders even if these are submitted on firm's

letter head and received in time. All such

manual offers shall be rejected summarily

Complete information including e-tender documents of the above e-tender is available

Note: The prospective tenderers are advised

to revisit the website fifteen days before the date of closing of tender to note any changes/corrigenda issued for this tender.

Chief Administrative Offier (Con)/

Bhubaneswa

in website http://www.ireps.gov.in

without any consideration.

PR-69/CC/19-20

COAST RAILWAY.

12 months.

CIN: L01409WB1986PLC041169 Regd. Office: "Sir RNM House" 3B, Lal Bazar Street, 4th Floor, Room No. 2, Kolkata-700 001 Tel.: +91-33-2210 3301: Fax: +91-33-4001-9636

E-mail id: info@kicmetaliks.com; Website: www.kicmetaliks.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at Durgapur Plant at Village -Raturia, Angadpur Durgapur 713215 District- Burdwan on Wednesday, November 13, 2019, inter alia, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2019.

This notice is also available on Company's website www.kicmetaliks.com and the website of the Stock Exchange, www.bseindia.com

> For K I C Metaliks Limited Sd/-

CENTRAL RAILWAY VARIOUS (S&T) WORKS IN MUMBAI DIVISION Divisional Railway Manager (S&T), 1st Floor, Parcel Office Building, above P.F.No. 14 & 15, Central Railway, Mumbai

CST 40001, for and on behalf of the President of India, invites sealed Open tenders from the reputed contractors. The time, date and submission of tender up to 15.00 Hrs on 28/11/2019 and will be opened at 15.15 Hrs on the same day.

Sr. No.1. Name of Work: Rehabilitation of
MSDAC & modification in existing circuits
at Mazgaon cabin station in south section
of Mumbai division. Tender Notice No.:
CR/BB/S&T/south/2019/106
Approximate Cost: Rs. 75.68 Lakhs
EMD: Rs. 1,51,400/- Cost of Tender
Form: Rs. 5,000/- Date of Opening:
28/11/2019 Validity: 45 days Completion
period: 12 Months. Sr. No. 2. Name of
Work: Provision of DAC for existing track
circuits to cater dual detection for track opened at 15.15 Hrs on the same day circuits over 5th and 6th line at VIKHROLI & GHATKOPAR stations of Mumbai Division. Tender Notice No.: CR/BB S&T/south/2019/107 Approximate Cost: Rs. 2.04 Crores EMD: Rs. 2,52,400/- Cost of Tender Form: Rs. 10,000/- Date of Opening: 28/11/2019 Validity: 45 days Completion period: 12 Months. Sr. No. 3. Name of Work: Linking of Datalogger with COA at major terminals at DADAR, LTT, PANVEL and KAMAN ROAD stations of Mumbai division. Tender Notice No. CR/BB/S&T/south/ 2019/109 Approximate Cost: Rs. 27.70 Lakhs EMD: Rs. 55,500/- Cost of Tender Form: Rs. 3,000/- Date of Opening: 28/11/2019 Validity: 45 days Completion period: 3 Months. Sr. No. 4. Name of Work: Yard remodelling at Roha for doubling of ROHA-VEER section. **Tender Notice No.**: CR/ BB/SnT/East/2019/108 Approximate Cost: Rs. 1.35 Crores EMD: Rs. 2,17,800/- Cost of Tender Form: Rs. 5,000/- Date of Opening: 28/11/2019 Validity: 45 days Completion period: 6 Months. This tender complies with Public Procurement Policy (Make in

India) Order 2017. dated 15/06/2017 The

Tender form can be purchased from above office. Complete details of tenders are

available at Central Railway Official website www.tenders.gov.in the complete tender documents can be downloaded from the

Company Application No. CA's/1018 TO 1022/CAA/2019

"TRANSFEROR COMPANY 1") AND HARITA VENU PRIVATE LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 2") AND HARITA CHEEMA PRIVATE LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 3") AND HARITA FINANCIAL SERVICES LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 4") AND HARITA SEATING SYSTEMS LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 5") AND MINDA INDUSTRIES LIMITED ("TRANSFEREE COMPANY") AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS ("SCHEME")

Chennai 600 006, Tamil Nadu.

NOTICE

Notice is hereby given that by an order dated 18th October 2019, the National Company Law Tribunal, Chennai Bench ("NCLT") has directed a meeting of the equity shareholders of the Company pursuant to the proposed Composite Scheme of Amalgamation under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions under the Companies Act, 2013 ("CA 2013"), amongst Harita Limited ("Transferor Company 1") and Harita Venu Private Limited ("Transferor Company 2") and Harita Cheema Private Limited ("Transferor Company 3") and Harita Financial Services Limited ("Transferor Company 4") and Harita Seating Systems Limited ("Transferor Company 5") and Minda Industries Limited ("Transferee Company") and their

In pursuance of the said order, and as directed therein, notice is hereby given that a meeting of the equity shareholders of the Applicant Company will be held at "Jayalakshmi Estates", No.29, Haddows Road, Chennai - 600 006 on Wednesday, 4th December 2019 at 2.30 p.m. and the equity shareholders of the Compan

Copies of the said Scheme, and of the statement under Section 230 of CA, 2013 can also be obtained free of charge at the registered office of the Applicant Company at "Jayalakshmi Estates" No. 29, Haddows Road,

Chennai - 600 006, Tamil Nadu. Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Company, not later than 48 hours before

Meeting of the Equity Shareholders of the Applicant Company. The above mentioned Scheme, if approved at the meeting will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

It is informed that the Company: on 31st October 2019 completed despatch of the Notice of the NCLT convened meeting along with

- has appointed M/s B Chandra & Associates, Company Secretaries as scrutinizers to conduct the voting at the NCLT convened meeting in a fair and transparent manner.
- the voting rights of equity shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital

The scrutinizers will submit their report to the Chairman of the meeting after completion of the scrutiny of the otes cast by the equity shareholders at the meeting. The results of voting will be announced on or before Friday, th December, 2019 at the registered office of the Company. The results, together with the scrutinizer's Reports

> H. Lakshmanan Chairman appointed for the Meeting

Tel. No. :91-22-66199000 Fax No. :91-22-22696023 mail: skil@skilgroup.co.in Website: www.skilgroup.co.in NOTICE NOTICE is hereby given Pursuant to

Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of the Securities and Exchange Board of ndia (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 13, 2019, interalia o consider and approve, the Un-Audited inancial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2019. The Notice can be accessed at the Company's website at www.skilgroup.co.in and also at the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e., the National Stock Exchange of India Limited at

Nilesh Mehta Company Secretary Place: Mumbai

Date: October 30, 2019

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Name Of Share Holders	Eq. Qty	Folio No	Certificate No	Distinctive No From	Distinctive No To
Rasik Manikchand Nahar Rekha Rasik Manikchand	500	H5R0013529	00028137	61519851	91520350
[Place] - Pune	[Name of Applicant[s]				
[Date] - 01.11.2019	Rasik Manikchand Nahar/ Rekha Rasik Manikchand				



for Deccan Cements Limited

Bikram Keshari Prusty

Company Secretary

R.O. Core 2, 1st Floor, "Scope Minar", Plot No. 2A & 2B, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110091 H.O.: "Dredge House", Port Area, Visakhapatnam-530001. .co.in, Tel.No. 0891-2523250,Fax No. 0891-2560581, website : www.dredge-india.com

NOTICE

www.dredge-india.com.

DCILFOR BUILDING SEAWAYS



For further details, the said Notice may be accessed on the Company's

Date: 31.10.2019 Place: Kolkata

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT CHENNAI

McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED DEBANJAN SARKAR COMPANY SECRETARY

Company Application No. CA's/1018 TO 1022/CAA/2019 IN THE MATTER OF THE COMPOSITE SCHEME OF AMALGAMATION AMONGST HARITA LIMITED

Raiesh Sharma

Managing Director

for Capri Global Capital Limite

("TRANSFEROR COMPANY 1") AND HARITA VENU PRIVATE LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 2") AND HARITA CHEEMA PRIVATE LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 3") AND HARITA FINANCIAL SERVICES LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 4") AND HARITA SEATING SYSTEMS LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 5") AND MINDA INDUSTRIES LIMITED ("TRANSFEREE COMPANY") AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS ("SCHEME")

Companies Act, 1956 and having its registered office at "Jayalakshmi Estates" No. 29, Haddows Road, Chennai 600 006, Tamil Nadu CIN: U74110TN1995PLC030473 ...Applicant Company/ Transferor Company 1 / Company

NOTICE Notice is hereby given that by an order dated 18th October 2019, the National Company Law Tribunal, Chenna Bench ("NCLT") has directed a meeting of the equity shareholders of the Company pursuant to the proposec Composite Scheme of Amalgamation under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions under the Companies Act, 2013 ("CA 2013"), amongst Harita Limited ("Transferor Company 1") and Harita Venu Private Limited ("Transferor Company 2") and Harita Cheema Private Limited "Transferor Company 3") and Harita Financial Services Limited ("Transferor Company 4") and Harita Seating Systems Limited ("Transferor Company 5") and Minda Industries Limited ("Transferee Company") and thei

respective shareholders ("Scheme"). In pursuance of the said order, and as directed therein, notice is hereby given that a meeting of the equity shareholders of the Applicant Company will be held at "Jayalakshmi Estates", No.29, Haddows Road Chennai - 600 006 on Wednesday, 4th December 2019 at 1.30 p.m. and the equity shareholders of the Compan

Copies of the said Scheme, and of the statement under Section 230 of CA, 2013 can also be obtained free o

charge at the registered office of the Applicant Company at "Jayalakshmi Estates" No. 29, Haddows Road Chennai - 600 006, Tamil Nadu. Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Company, not later than 48 hours before he meeting. Voting Right of Equity Share holders shall be reckoned as on 25th October 2019. Forms of proxy

are available at the registered office of the Applicant Company. The NCLT has appointed Mr H Lakshmanan or in his absence Mr K Gopala Desikan to be the Chairman of the Meeting of the Equity Shareholders of the Applicant Company. The above mentioned Scheme, if approved a he meeting will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

- on 31st October 2019 completed despatch of the Notice of the NCLT convened meeting along with explanatory statement and annexures to the shareholders, whose name appear on the Register o Members / List of Beneficial Owners as on 25th October, 2019. has appointed M/s B Chandra & Associates, Company Secretaries as scrutinizers to conduct the voting at
- the NCLT convened meeting in a fair and transparent manner. the voting rights of equity shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capita of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 25th October, 2019.

The scrutinizers will submit their report to the Chairman of the meeting after completion of the scrutiny of the otes cast by the equity shareholders at the meeting. The results of voting will be announced on or before Friday, 6th December, 2019 at the registered office of the Company. The results, together with the scrutinizer's Reports, will be displayed at the Notice Board of the registered office of the Company. Sd/-

H. Lakshmanan Chairman appointed for the Meeting

For **Dredging Corporation of India Limited**

terms of Regulation 33 of the said Regulations.

Director (Finance) and Company Secretary

For Rossell India Limited N K Khurana

Place: Kolkata Date: 31.10.2019 Company Secretary

website. The complete details of tenders are also available in the "Notice Board" of the Divisional Railway Manager (S&T)'s Office, Mumbai CST. Ruchika Fogla

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT CHENNAL

IN THE MATTER OF THE COMPOSITE SCHEME OF AMALGAMATION AMONGST HARITA LIMITED HARITA VENU PRIVATE LIMITED,

a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at "Jayalakshmi Estates" No. 29, Haddows Road, ...Applicant Company/ Transferor Company 2 / Company

espective shareholders ("Scheme").

are requested to attend.

he meeting. Voting Right of Equity Share holders shall be reckoned as on 25th October 2019. Forms of proxy are available at the registered office of the Applicant Company. The NCLT has appointed Mr H Lakshmanan or in his absence Mr K Gopala Desikan to be the Chairman of the

explanatory statement and annexures to the shareholders, whose name appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 25th October, 2019.

- of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 25th October, 2019.
- will be displayed at the Notice Board of the registered office of the Company.

Place : Chennai Date: 31st October 2019

SKOPL

Name of the Work: EXECUTION OF PRELIMINARY WORKS LIKE SURVEY OF ROAD CROSSINGS, SOIL

SKIL Infrastructure Limited CIN: L36911MH1983PLC178299

www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com For SKIL Infrastructure Limited सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर ५ कायद १ व ५)

न्यायालय ए.सी.जे. (सीनियर डिवीजन) कोर्ट सं.-८, गाजियाबाद मूल वाद संख्या-२४५ सन् २०१५

इलाहाबाद बैंक ए बॉडी कारपोरेट कंस्टीटयूटेड अण्डर दी बैकिंग कम्पनीज (एक्जीक्यूशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डर टेकिंग) एक्ट 1970 जिसका हेड ऑफिस 2 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता—01 तथा एक ब्रांच अन्य जगहों के अलावा नवयुग

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री शौधराम निवासी सी–48, ग्राउण्ड फ्लोर, सैक्टर–11 विजयनगर, गाजियाबाँद

2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री याद राम सिंह निवासी ए–581, सैक्टर–12, प्रताप विहार माता कालोनी, गाजियाबाद दूसरा पता : राजेन्द्र प्लास्टिक गुंड्स, मकान नं. 55ए, गर्ल —1. कैलाशनगरः गाजियाबाटः

3. तेजपाल सिंह निवासी सी–181. आर्यनगर, रेलवे कालोनी, गाजियाबाद हरगाह वादी ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बातारीख 15 माह 11 सन् 2019 बरवक्त 10 बजे दिन के बस्लातन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जबाब ऐसे सेवालात दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करे और आपका लाजिम है कि उर्स रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें जिन पर आप बताईद अपनी जबाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हो। आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होगें तो मुकदमा बगै

हाजिरी आप मसमञ्ज और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तख्त और मुहर अदालत के आज तारीख 4 माह 10 सन् 19 ई. जारी किया गया अपर सिविल जज (सी.डि. कोर्ट संख्या–8, गाजियाबाद

क्षेत्रीय कार्यालयः 11वीं मंजिल, वीडियोकॉन टावर, झंडेवालां एक्सटेंशन

नई दिल्ली-110055 (आईसीआईसीआई बैंक) पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्कल के निकट, ओल्ड पडरा रोड, वडोडरा-390007

कॉरपोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉमप्लेक्स, बांद्रा (ई), मुम्बई-400 051 सार्वजनिक सूचना

चुंकि आईसीआईसीआई बँक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 ("अधिनयम") के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के

तथा प्रतिभूति हित (प्रतिन) नियम, 2002 ("नियम") क नियम 3 के साथ पिर्त बारा 13 (12) के अर्जार्थ प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत 09,05,2019 को एक मांग सूचना ("निर्गांक 02/08/2019 को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित") जारी की गई थी, जिसमें इंडियन एकॉस्टिक्स प्रा. ति. ("कर्जदार"), अमरजीत सिंह कालरा (गार्रटीदाता), जगजीत कीर कालरा (गार्रटीदाता), जुरिड़ सिंह कालरा (गार्रटीदाता), जगजीत कोर कालरा (गार्रटीदाता), जिस के किल कालरा (गार्रटीदाता) के उन मांग सूचना की प्राप्त की तारीख से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में उल्लेखित रकम दिनांक 16,04,2019 को रु. 284,459,337,86/- (रुपये अद्वाईस करोड़ चीवालीस लाख उनसठ हजार तीन सी सैतीस एवं पैसे रिकारी माज्ये के स्थान सावारा वस्त्री की नारीख सक्तर अर्थांक्रियार हुए करम एन अपने के स्थान सावारा वस्त्री की नारीख सक्तर अर्थांक्रियार हुए करम एन स्थान अपने कराया लाखी की

छियासी मात्र) के साथ मुगतान/बसूली की तारीख तक अनुबंधकीय दर पर उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य आकस्मिक ब्यय, लागत, शुक्क इत्यादि चुकता (जिसे यहां बाद में सामूहिक रूप से "बकाया राशि" कहा गया है) करने को कहा गया था।

करा राज्य है। करने का अर्था राज्य था। रुपर उल्लेखित कर्जदार तथा गारेटीदाता द्वारा उक्त बकाया रकम चुकता करने में असफल होने के कारण एतदृद्वारा कर्जदार/गारेटीदाताओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि कपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत

अधोहस्ताक्षरी द्वारा <mark>29 अक्टूबर, 2019</mark> को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति ("सम्पत्तियाँ") पर प्रतीकात्मव कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा गारंटीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतदद्वारा सतर्क किय

जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सीदा न करें तथा प्रत्यामृत संपत्ति से संबंधित कोई भी सीदा बकाया रकमों के लिए आईसीआईसीआई बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्यापुत सम्मति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार के नाम पर डी-180, ईपीआईपी कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित

्र बंजियर के नाम र उना ठा, उन्हों का प्रवास के किया है। बोहोमिक सम्पत्ति का पद्मधारण अधिकार 2. सुर्पेंद्र कोर कालरा के नाम पर डब्ल्यूजेड-15वी, भूतल, पहली मंजिल तथा दूसरी मंजिल, उगरसेन मार्केट, अशोक नगर, दिल्ली में स्थित वाणिज्यिक सम्पत्ति।

ान्तरम् जनायः नन्तः, ।यस्या न ।रथत वाम्याप्यकः सम्मातः। 3. सुर्पिद् कौर कालरा के नाम पर सी-116, दूसरी मंजिल, कतेह नगर, जेल रोड, नई दिल्ली में स्थिर वाणिच्यिक सम्मति।

सार्वजनिक उद्घोषणा मारतीय दिवाला और ऋण शोघ अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियामावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन,

क्यू प्रेसीजन पार्टस लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

अधिकृत अधिकार्र कृते आईसीआईसीआई वैंक लिमिटेड

क्यू प्रेसीज़न पार्टस लिमिटेड

18.08.1960

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली

(आरओसी) दिल्ली

U74899DL1960PTC003280

41, डीएलएफ, औद्योगिक क्षेत्र,

29.10.2019 (उच्चारण पर आदेश दिनांक 06.09.2019 को आदेश प्राप्ति की तिथि : 29.10.2019)

27.04.2020

IBBI/IPA-001/IP-P00626/2017-18/11082

पताः सी–402, कॉवेरी सेरेनिटी, #10/1-1,

येशवंथपुर, बैंगलोर-560022, कर्नाटक।

फ्लैट नं. 116, पॉकेट—डी, सरिता

ई—मेल : ip.kewprecision@gmail.com

12.11.2019

लागू नहीं

लाग् नहीं

https://ibbi.gov.in/home/download

(अ) वेबलिंकः

(ब) लागू नहीं

नाम : अश्वनी कुमार गुप्ता

राघवेन्दर एक्सटेंशन, तुमकुर रोड,

ई—मेल : akguptafca@gmail.com

विहार, नई दिल्ली-110076

नई दिल्ली-110015

अचल सम्पत्तियों का विवरण

दिनांक : 28/10/2019 स्थान : नई दिल्ली

कॉर्पोरेट देनदार का नाम

कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि

यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट

कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान

संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या

तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता

दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार

हेतु बोर्ड में पंजीकृत पता और ई—मेल

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का

पत्राचार हेतु पता और ई–मेल

दावे प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि

के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की

किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत

प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु

(ब) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण

(प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)

(अ) संबंधित प्रपत्र और

उपलब्ध है।

पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

साधनों द्वारा प्रस्तत कर सकते हैं।

चिहिनत इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा

21 की उप—धारा (6क) के क्लॉज (ख)

कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में

देवाला आरम्भ होने की तिथि

अनुमानित तिथि

और रजिस्ट्रेशन नम्बर

ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है

🗗 ICICI Bank आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

w aurelia *wishful

टीसीएनएस क्लॉथिंग कं. लिमिटेड **जीकृत कार्यालय** : यूनिट नं. 112, एफ/एफ रेक्टेंगल 1, डी-4, साकेत, डिस्ट्रिक्ट सेंटर नई दिल्ली-17

कॉरपोरेट कार्यालयः 119, न्यू मंगलापुरी, डब्ल्यू-हाउस, मंडी रोड, सुल्तानपुर मेहरौली, नई दिल्ली-110030, **दूरभाष नं**.: 011-42193193, **फैक्स नं.**: 011-42193194 बेवसाइटः www.wforwoman.com; ई-मेलः investors@tcnscloting.com CIN: L99999DL1997PLC090978

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त द्वितीय तिमाही/छमाही के लिए एकल अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ अन्य विषयों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार 8 नवम्बर, 2019 को आयोजित होगी।

इसके अलावा, सेबी (घनिष्ठ व्यक्तियों की ट्रेडिंग पर निषेध) विनियमन, 2015 तथा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के घनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण, निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता के अनुसार घनिष्ठ व्यक्ति तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों (उनके आश्रितों तथा www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सजेंच ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध रहेंगे।

कृते टीसीएनएस क्लॉथिंग कं. लिमिटेड पीयूष असिज

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01 नवम्बर, 2019

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन) प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन अचल

यक्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 5534630 अभिजीत यादव

वूंकि प्रत्याभूत ऋण की वसुली के लिए प्रत्याभूत सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा चूं 4 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार रु. 2,46,11,704/- (रुपये दो करोड़ छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सी चार मात्र) के साथ सभी लागतों, व्याज इत्यादि सहित आगे की लागतों, उसकी वसुली तक उस पर व्याज की रकम बकाया थी। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी भी तरह के स्थगनादेश/बिक्री पर रोक की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी द्वार 16 नवम्बर, 2019 को अपराहन 2 बजे सातवीं मंजिल, वीडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झंडेवाल एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 में बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति क्रय करने के लिए ई-नीलामी के साथ ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट **टाटा कैपिटल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटे**ड के अधिकृत अधिकारी को 15 नवम्बर, 2019 को अ**पराहन 5 बजे तक** प्राप्त हो जाना चाहिए "जैसे है जहां है" एवं "जैसे है जो है" तथा "वहां जो कुछ है" की शर्त के आधार पर सम्पर्ति की बिक्री की जाएगी तथा इस सम्पत्ति के संबंध में अब तक ज्ञात देयताएँ तथा दावों का उल्लेख

प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. एएन-196, मोती भवन निर्माण शहकारी समिति लि., जयपुर, पंजीयन सं. 2555/एल स्कीम नं. 9. आनंद नगर, सिरसी रोड, जयपूर, क्षेत्र का परिमाप 715.5 वर्ग वार्ड, सम्पत्ति (प्लॉव नं. एएन-196) की चौहदी : पूर्व में : प्लॉट नं. 197, पश्चिम में : सड़क, उत्तर में : अन्य जमीन

कब्जा का प्रकार (तर्कसाध्य/भौतिक): मौतिक

आरक्षित मूल्य (क.): रु. 2,33,00,000/- विद्याना राशि (क.): रु. 23,30,000/-

बिक़ी पर रखी गुई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। 'अधिकृत अधिकारी' के पास ऊपर इल्लिखित रकम के साथ उस पर ब्याज एवं लागत (बिक्री की लागत सहित) का भुगतान कि जाने पर अथवा संबंधित प्रत्यामूत ऋण की राशि, ब्याज एवं लागत की रकम का भुगतान करने वे संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर विक्री रोक दी जाएगी। विक्री के लिए जन साधारण को अपन निविदा व्यक्तिगत रूप में जमा करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष अधव अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह के कार्य करने वाले अन्य कोई भी अधिकारी अथवा व्यक्ति बिक्री की गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित करने अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं कर्जदार द्वारा बिक्री की तारीख से पहले सम्पूर्ण बकाया राशि टाटा कैपिटल फाइनैशियल सर्विसेप लिमिटेड को चुकता कर दिए जाने पर बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित शतौं तथा नीचे उल्लिखित नियमों पर आधारित होगीः

ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड) के माध्यम से 16 नवम्बर, 2019 को अपराहन 2.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तारित समय के साथ आयोजित होगी।

यहां नीचे अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधौहरताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार परंतु इस घोषणा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेह नहीं होगा। बोली रकम, अथवा बोलीदाता के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो

आरक्षित मल्य से कम रकम पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी

नम्मति ग्रंय करने के लिए जमा की गई सभी बोलियों के साथ टाटा कैपिटल फाइनीरीयल सर्विसेख लिमिटेड के पक्ष में **दिल्ली** में भुगतेय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऊपर उल्लेखित कर दिए जाएंगे।

सर्वोच्च बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्त कि उन्हें बोली वे लिए वैधानिक रूप से योग्य होना चाहिए तथा उसकी बोली रकम आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित मुल्य के स्पष्ट रूप से अपर्याप्त पाए जाने पर अधिकृत अधिकारी के

निर्धारित कारणों से अधिकृत अधिकारी बिक्री स्थगित/रोक सकते हैं।

4 नवम्बर, 2019 को पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 5 बजे के बीच सम्पत्ति का निरीक्षण किया

राशि की पच्चीस प्रतिशत रकम जमा करना श्रोगा. अन्यथा पहले से जमा की गई राशि जन्त

को अधिकृत अधिकारी के पास सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टीकरण की तारीख से, संबंधित दिवस को छोड़कर, 15 दिनों के अंदर अथवा 15वां दिन के रविवार अथवा छुष्टी का दिन रहने पर 15वें दिन के बाद वाले प्रथम कार्यालय दिवस को जमा करना डोगा। निर्धारित समय के अंदर भुगतान करने में विफल रहने पर नए सिरे से बिक्री घोषणा जारी कर सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा तब तक जमा की गई सभी रकम टाटा कैपिटल फाइनैशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी हिस्से के प्रति विफल क्रेना के सभी दावों को समाप्त कर दिया जाएगा, बाद में बिक्री किए जाने से प्राप्त रकम के किसी भी हिस्से पर उनका कोई दावा नहीं होगा। अधिकृत अधिकारी के इच्छानुसार सम्पत्ति

सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड अहमदाबाद, दूरभाष सं. 079 61200 520/598/554/587/559/587/538 ईमेल आईडी : delhi@auctiontiger.net,

support@auctiontiger.net, tilak@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं। टिप्पणी : इच्छुक बोलीदातागण अधिकृत अधिकारी श्री जयदीप सेहरावत, ईमेल आईर्ड jagdeep.sehrawat@TataCapital.Com तथा मोबाइल नं. 8588806158 से सम्पर्क

13. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट https:/ sarfaesi.auctiontiger.net पर प्रदत्त लिंक देखें।

साधना द्वारा प्रस्तुत कर सकत ह। प्रविष्टि सं. 12 (लागू नहीं) के अधीन सूचीबद्ध अनुसार वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार को फार्म सीए में वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 (लागू नहीं) के अधीन तीन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में से अपनी पंसद का एक अधिकृत प्रतिनिधि चुनना होगा। दावें के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। अश्वनी कुमार गुप्त दिनांकः 01.11.2019 स्थान : नई दिल्ली

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 06.09.2019

(आर्डर प्राप्त करने की तिथि 29.10.2019) को क्यू प्रेसीजन पार्टस लिमिटेड के विरुद्ध कापोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

क्यू प्रेसीज़न पार्टस लिमिट्ड के लेनदारों से ऐतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 12.11.2019 को

अथवा पूर्व, अंतरिम समाधान प्रोफशनल के समक्ष उपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते तथा ई—मेल

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक

अश्वनी कुमार गुप्ता पुरित पेख-11य होगी | अंतरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल पंजीकृत सं. |BB|||PA-001||P-P00626|2017-18|11082

TATA

टाटा कैपिटल फाइनैशियल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टावर ए 1101 पेनिनसुला दिजनेस पार्क गणपतस्य कदम मार्ग, लोअर पर्रेल, नुम्यई-400013 (भारत) साख्य का पता : टाटा किपटल फाइनेंसियल सर्विसंक लिफिटेड, 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झंडेबालान एक्सटेंडगन, गई विल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की विक्री के लिए विक्रय सूचना

एतदद्वारा जन साधारण एवं विशेष रूप से निम्नतिखित कर्जदार/सह-कर्जदार को सूचित किया जाता है कि अभिजीत यादव, 119 आनंद नगर, सिरसी रोड, जयपुर (राजस्थान), 302010 तथा कृष्णा यादव, 119 आनंद नगर, सिरसी रोड, जयपुर (राजस्थान), 302010 से 4 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल रकम रु. 2,46,11,704/- (रुपये दो करोड़ **छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ चार मात्र)** की वसूली के लिए टाटा कैपिटल फाइनैशियर सर्विसेज लिमिटेड (प्रत्याभृत ऋणदाता) के पास गिरवी पर रखी गई वहां नीये उल्लिखित अवल सम्पत्ति, जिस पर टाटा कैंपिटल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता) के अधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर किया गया था, को **"जैसे है जहां है" एवं "जैसे है जो है**" तथा "बह जो कुछ है" के आधार पर 16 नवम्बर, 2019 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि जमा का उल्लेख नीचे दिया गया है।

नीचे अनुसूची में किया गया है।

लॉट को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।

बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।

बयाना राशि की रकम संलग्न होनी चाहिए। असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस

इच्छानुसार उस बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

केता के रूप में घोषित व्यक्ति को इस घोषणा के तुरंत बाद अधिकृत अधिकारी के पास क्रम

कर ली जाएगी एवं सम्पत्ति को दोबारा बिक्री के लिए रखा जाएगा। उपरोक्त प्रारम्भिक राशि का भुगतान किए जाने पर, कय रकम की शेष राशि का भूगतान केता

की पनः बिक्री जाएगी।

 टाटा कैपिटल फाइनैशियल सर्विसेज लिमिटेड को ज्ञात सम्पत्ति से संबंधित किसी भी तरह का ऋण भार : शून्य है। सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह का दावा तथा अपनी प्रकृति एवं मूल्य का अन्य कोई भी ज्ञात विवरण: शून्य है। उपरोक्त विवरण के अलावा अन्य कुछ भी . पलब्ध नहीं है।

. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदातागण

तारीख: 31.10.2019 अधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनैशियल सर्विसेज लिमिटेड

AXIS BANK LTD.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण— ।, दिल्ली

. **श्री राजीव राज राठी** पुत्र स्वर्गीय चंद राम राठी निवासी मकान नं. 2066, सेक्टर–4,

शकुंतला सिनेमा हॉल, अबैन स्टेट, गुडगांव, (हरियाणा)—122011 यह भी: 1/536/ए— 1 गली नं. 4 फ्रेंडस कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली—110032

श्री सतीश राठी पुत्र स्वर्गीय चंद राम राठी निवासी मकान नं. 2066, सेक्टर-4, शक्तल

सिनेमा हॉल, अर्बन स्टेट, गुड़गांव, (हरियाणा)–122011 श्रीमत्ती सुनीता ढिल्लो पत्नी नरेश ढिल्लो पुत्री स्वर्गीय चंद राम राठी निवासी मकान नं

अभिरती अनिता दहिया पत्नी कर्नल यूबी दहिया पुत्री स्वर्गीय चंद राम राठी, म.नं. 192 ग्राउंड फ्लोर, मायापुरी एन्क्लेव, तिहाड़ / हरिओम नगर के पास, नई दिल्ली

श्री मदन लाल, पुत्र श्री जया लाल, सी–536, डीडीए फ्लैट, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली–32

चूंकि उत्तर नामित आयेदक ने आपके विरुद्ध रु. 91,76.401.00 / – (रुपए इक्यानवे लाख चूंकि उत्तर नामित आयेदक ने आपके विरुद्ध रु. 91,76.401.00 / – (रुपए इक्यानवे लाख कियत्तर हजार चार सौ एक केवल) की वसूली के लिए एक मामला दर्ज किया था और चूंकि न्यायाधिकरण के संतुष्टिकरण के लिए यह दर्शाया गया है कि यह साधारण तरीके से आपके ह्यारा पूरा करना संभव नहीं हैं। हालांकि, आपको 16,12.2019 को सुबह 10.30 बजे लि.

जिस्ट्रीर के सक्षम प्रस्तुत होने के लिए आपको निर्देश देते हुए विज्ञापन द्वारा सूचना दी गई है | ध्यान दें कि न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त वर्णित तिथि पर प्रस्तुत होने में असफल होने के

मामले में, केंस को सुनवाइ हागा आर आपका रुपारचार किया ने मुहरबंद 18 अक्टूबर, 2019 को न्यायाधिकरण के द्वारा हस्ताक्षरित व मुहरबंद इस न्यायाधिकरण के आदेश अनुसार रिजस्ट्रार के लिए

गमले में, केस की सुनवाई होगी और आपकी उपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

प्रतिवादी

श्री राजीव राज राठी व अन्य

ओ.ए. नं. 1113/2018

र—31, गुड़गांव, (हरियाणा)

डलाहाबाद बैंक

स्ट्रक्चरुड एस्सेट्स ग्रूप, प्लॉट ।—14, टॉवर—1, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएड़ा (उ.प्र.) —201304

ऋण वसूली प्राधिकरण-॥।, दिल्ली

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ

पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम 1993) के नियम 12 एवं 13 के अधीन सूचना

सं. 104, पहली मंजिल, एनडीएम मॉल-।, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा,

चुंकि ऊपर उल्लिखित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला दायर किया है तथा चुंकि

यायाधिकरण की संतुष्टि के अनुसार यह पाया गया है कि आपको साधारण तरीके से उसे सेवित

करना संभव नहीं है। इसलिए विज्ञापन के माध्यम से यह सूचना दी जाती है, जिसमें आपको इस न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 03.12.2019 **को सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होने का निर्देश

यह ध्यान दें कि इस न्यायाधिकरण के समक्ष ऊपर उल्लेखित तारीख को उपस्थित होने में विफल

होने पर आपकी अनुपस्थिति में संबंधित मामला पर सुनवाई कर निर्णय ले लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा 30 सितम्बर, 2019 को जारी।

श्री विनय गुप्ता एवं अन्य

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार

डीआरटी-III. नर्ड दिल्ली

ई—नीलामी बिक्री सूचना

निम्नलिखित के मामले में

ओए. 366/2018/डीआरटी-III

तमिलनाड मर्केटाइल बैंक लि

श्री सुनील कुमार, पिता देविन्द्र पाल सिंह

नई दिल्ली-110034

इ—नालामा ।बक्रा सूचन। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(६) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 की धारा 13(४) के अंतर्गत ई—नीलामी द्वारा अचल संपत्तियों की बिक्री । एतदद्वारा सर्वसाधारण को प्रभाव से सूचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को 'जहां है जैसी है'', ''जो है जैसा है'', और ''जहां कहीं है'' के आधार पर सूचना में वर्णित तिथि व समय पर ई—नीलामी आयोजित कर/सार्वजनिक आमंत्रण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बेची जाएगी। इच्छुक बोलीदाता विस्तृत विवरण/बिक्री की शतों, यदि आवश्यकता हो के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

ई—नीलामी की तिथि व समय संपत्ति का विवरण प्रतिभूतित ऋण 1. मैसर्स रामेश्वर दास सुरेंद्र कुमार (ऋणी) 5523, मोती कटरा, नई सड़क, चांदनी चौक, दिल्ली 2. राइड साइड आधा ग्राउंड फ्लोर व मेजिनाइन ₹. 7,03,42,879.13 22.11.2019 फ्लोर कर्मिशयल दुकान के छत अधिकारों के 5.50 करोड को सुबह 11.00 से दौप 12.00 के बीच तीन लाख बयालीस श्रीमती सरला देवी (गिरवीकर्ता व गारटर) म. न साथ मौजूदा नं. 5523, माप 26.30 वर्ग यार्ड या ईएमडी ख़ार आठ सौ उनार्स कमला नगर, दिल्ली—110006, **3. सुरेंद्र कुमार (मालिक)** 5523, मोती कटरा, नई सड़क, चांदनी चौक, दिल्ली व 21.99 वर्गे मीटर, कटरा मोती, नई सड़क, दिर्ल्ल रु. 0.55 करोड़ व पैसे तेरह केवल श्रीमती सरला देवी के स्वामित्व में सीमाएं 31.12.2018 तक (इसमें 30.09.2018 तक लागू ब्याज शामिल है) भुगतान की तिथि तक उसपर भावी ब्याज व में जुला पूर्व सुवर, बादना बाबर, घरणा प म. नं. डी—38, कमला नगर, दिल्ली—110006, **4. श्री राजीव गुप्ता (गारंटर),** म. नं., डी—238, कमला नगर दिल्ली— 110006 निम्नानुसारः पूर्वः कॉमन पैसेज, पश्चिमः संपत्ति नं. 5523—ए, उत्तरः कॉमनु पैसेज् और संपत्ति नं. 5501, 5502, 5503, दक्षिणः कॉमन पैसेज और संपत्ति नं. 5520, 5520–ए, 5519

जमा घरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 20.11.2019 को शाम 5.00 बजे

नोटः ऋणी/गारंटर/गिरवीकर्ताओं को प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) 2002 के नियम 8 व 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के मीतर मावी ब्याज व अन्य शुल्कों सहित कुल देयों का मुगतान करने के लिए 15 दिनों की सूचना दी जाती है असफल होने पर संपत्ति को इस सूचना में वर्णित समय के अनुसार बेची जाएगी।

किसी भी पुछताछ के लिए संपर्क करें: ø990799379, 9971766900, RecoveryCell.North@axisbank.com

नियम व शर्ते: 1. संपत्तियों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से ई—नीलामी की जाएगी। 2. नीलामी बिकी / बोली प्रत्येक 5 मिनट के असीमित स्व विस्तार के साथ उक्त वर्णित तिथि पर वेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net के द्वारा "ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक बोली" प्रक्रिया / ऑक्शन टाइटर मोबाइल एप्प के द्वारा की जाएगी। 3. ईएमडी (सूचित आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) एक्सिस बैंक लिमिटेड, नोएडा या दिल्ली के पक्ष में डाले गए डिमांड ड्वापट द्वारा चुकता की जाएगी। इंएमडी राशि के साथ दस्तावेजों के बोली जमा करने की अतिम तिथि: 20.11.2019 को शाम 5.00 बजे। बोलीदाता का पूरा नाम, पता व संपर्क नं, व ई—मेल आईडी डिमांड ड्वापट (इंएमडी) के पीछे वर्णित किया जाना चाहिए। 4. मुहर लिफाफे में बोलीदाता का विवरण (केवाईसी दस्तावेज अर्थात फोटो आईडी प्रमाण, पैन कार्ड और पता प्रमाण व ई—मेल आईडी) व ईएमडी बैंक के कार्यालय पता (1) स्टूक्वरड एस्सेट्स यूप, प्लॉट —14, टॉक्यर 1, चौथी मंजिल सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.)—201304 या (2) सीसीएसायू राजौरी गार्डन, ए—11, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, के सामने, नई दिल्ली—110027 5. ई—नीलामी निर्धारित नियम व शर्त का विवय होगी जिन्हें एक्सिज बैंक (नं.1) के उपरोक्त पते से प्राप्त किया जा स्वक्ता है और बोली प्रपत्न ज्ञान करना उन नियम व शर्त के आपने पर प्रमाण करना उन नियम व शर्त के अपने स्वयन से अपने स्वर्मा है से अपने स्वरण करना करने होनी वाली ना उन्हार का स्वर्ण के प्राप्त में अपने स्वरण करना करने अरिवास्त्र का का करना उन नियम व शर्त के सामन के सामन स्वर्ण के प्राप्त में अपने सम्बर्ण के स्वर्ण के सामन स्वर्ण के प्राप्त में अपने सम्बर्ण के सामन स्वर्ण के सामन स्वर्ण के अपने सम्बर्ण के सामन स्वर्ण के सामन स्वर्ण के अपने सम्बर्ण के सामन स्वर्ण के प्राप्त में अपने सम्बर्ण के स्वर्ण के अपने सम्बर्ण के स्वर्ण के अपने सम्बर्ण के स्वर्ण के अपने सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण के अपने सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के स्वर्ण के अपने सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के स्वर्ण के सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के साथ के स्वर्ण के सम्बर्ण के अपने सम्बर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के सम्बर्ण क सकता है और बोलो प्रपत्र जमा करना जन नियम व शतो का अशतीय विषय हो। [6. नोलामी उक्त वोणत अनुसार आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता रू. 1.00 लाख के गुणक में अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकेंगे। 7. इच्छुक बोलीदाताओं के पास वैध ई—मेल आईडी होना चाहिए और पोर्टल https://axisbank.auctiontiger.net/नीलामी टाइगर मोबाइल एप्प पर भी अपने नाम रिजस्टर करना होगा और मैसर्स ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. (इंटीएल) जहांपर वे ऑनलाइन ई—नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी। 8. संभावित बोलीदाता मैसर्स ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद संपर्क व्यक्तिः टॉल फ्री नं. 1800 103 5342 श्री राम शर्मा मोबाइल नं. 08000023279 ई—मेल आईडी: ramprasad@auctiontiger.net लेंडलाइन नं. : 079—40270596/ 079—40270538, फैक्स नं. 079—40016876 से ई—नोलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 9. ईएमडी राशि उच्चतम / सफल बोलीदाता के मामले में समायोजित की जाएगी, अन्यथा असफल बोलीदाता को अंतिम बिक्री के 2 कार्य दिवसों के भीतर बोली आवेदन में वर्णित पते पर वापस कर दी जाएगी (या बैंक कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से एकत्र कर सकते हैं) अन्यश्ना असर्भल बालादाता को आतम बिक्रों के 2 काय दिस्सा के मतिर बाला आवंदन में वागत पत र वापत रहें वाजा नहीं दिया जाएगा। 10. इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व वातचीत नियुक्ति के साथ साइट पर संपत्तियों की जांच कर सकते हैं। 11. उच्चतम/स्मल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकृति के बाद तुरंत (48 घंटों के भीतर) जमा घरोहर राशि समायोजन के बाद बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा। असफल होने पर जमा घरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली के लिए कानूनी रूप से योग्य होने के बाद ही संपत्ति के खरीदार के रूप में घोषित किया जाएगा। बिक्री मूल्य का शेष 75 प्रतिशत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री के सुनिश्चितीकरण के 15 दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय पर स्वयं और लिखित में सहमति पर ऐसी विस्तारित अवधि पर खरीदार द्वारा प्रतिशत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री के सुनिश्चितीकरण के 15 दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय पर स्वय और लिखित में सहमित पर ऐसी विस्तारित अवधि पर खरीदार द्वारा देय योग्य होगा, असफल होने पर इंएमडी जब्द कर ली जाएगी। 12. कन्वेयस, स्टॉप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और सभी कर आदि, लागू अनुसार केवल सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किए जाएगे। 13. उक्त संपति श्री की की लेए या इस सूचना के निर्माण में किसी या बैंक के माग पर किसी प्रतिविध बनाई जाएगी, बैंक / प्राधिकृत अधिकारी को बिना केंद्र कारण बताते हुए किसी भी कारण से चाहे कुछ भी हो बिक्री को रदद करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है और ऐसे रदद पर बोलीदाता द्वारा कोई सवाल नहीं किया जाएगा। 14. यह प्रकाशन अग्रिम में उक्त ऋणी / गारंटरों / गिरवीकताओं को 15 दिनों की सूचना भी है। 15. इच्छुक पार्टियां बैंक (नं. 1) पते पर कार्य घंटों के दौरन पर कृपया संपर्क कर सकती हैं। 16. बिक्री सुनिश्वितकरण के अतिरिक्त में, सभी लागू करो, छूट वर्षों, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। और बैंक उसकी कोई जिम्मेदारी ना। 17. एक्सिस बैंक लि. को उसपर बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पर नीलामी को रदद करने का पूर्ण अधिकार है। 18. नीलाभी जमा करना / भाग लेना बैंक के निधारित नियम व शर्तों का विषय होगी जिसे संबंधित बैंक (नं.) पत से एकत्र किया जा सकता है। 19. ऋणभार, यदि कोई है, बैंक के ऋण के अलावा बैंक को ज्ञात नहीं है। विशेष निर्देश व चेतावनी: अतिम मिनट / संकंड में बोली से स्वयं अपने हित में बोलीदाता को बचने की सलाह दी जाती है। एक्सिस बैंक या सेवा प्रवार ऐसे मामले में, वेंडर के किसी माम पर कोई भी किसी कमी / असफल (इंटरनेट असफलता, बिजली जाने आदि) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे किसी आकस्तिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से सभी आवश्यक प्रबंध / विकल्प करने का अनुरोध किया जाता है ताकि वे ऐसे स्थिति से निकलने में सक्षम हों और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग लेने में सक्षम हों।

नोटः प्राधिकृत अधिकारी को उसपर बिना कोई कारण बताते हुए बिक्री / नीलामी को आगे बढ़ाने या रद्द करने या किसी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिंकार सुरक्षित है।

दिनांकः 31.10.2019 स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, (एक्सिस बैंक लि.)

> आंध्रा बेंक कर्जदार की बिक्री के बारे में सूचना हेतु नोटिस (30 दिन का नोटिस)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(2)/8(6) ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता मांग नोटिस की तिथि बंधक आस्तियां / सम्पत्तियों का विवरण एवं कब्जा लेने की तिथि रिजर्व मूल्य 1. भूमि व भवन- आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामी श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री राम 1. <u>गढ़ रोड़ मेरठ शाखा</u>-मांग नोटिस की **হ্ন**0 21.50 अवतार, (सम्पत्ति स्वामी), स्थित रेजीडेंटल फ्लैट नं0 108, निर्माण प्रथम तल पर, <u>ऋणीः</u> मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्राइवेट तिथि मेजर हरिश चंद रॉयल अपार्टमेंट, राम बाग रूड़की रोड, मेरठ, खसरा नं0 79/2 लिमिटेड, 608, मेजर हरिश चंद 01.06.2019 एवं 80 ग्राम रोशनपुर डोरली परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप अपार्टमेंट, रूड़की रोड मेरठ, (प्रतिस्थापित 92.90 वर्ग मीटर, एवं सीमार्ये:-पूर्वः आम दीवार तदोपरान्त फ्लैट नं0 107, पश्चिम श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, खुला आकाश, उत्तरः कोरिडोर तदोपरान्त फ्लैट 116, दक्षिणः खुला आकाश सर्विस निवासीः 240, तहसील रोड, चौपला, दिनांक 04.07.2019 2. भूमि व भवन- आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामी श्री विकास अग्रवाल पत्र श्री राम रू0 26.00 गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ-245205, कब्जे की तिथि अवतार. (सम्पत्ति स्वामी), स्थित रेजीडेंटल फ्लैट नं0 312. निर्माण ततीय तल पर. श्री विकास अग्रवाल पत्र श्री रामोवतार. मेजर हरिश चंद रॉयल अपार्टमेंट, राम बाग रूड़की रोड, मेरठ, खसरा नं0 79/2 04.09.2019 निवासीः म.न० 52, पट्टी हुलसराय- 1, एवं 80 ग्राम रोशनपुर डोरली परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप (प्रतिस्थापित

तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर, उ०प्र० 130.06 वर्ग मीटर, एवं सीमायें:-पूर्वः आम दीवार तदोपरान्त फ्लैट नं0 311 समाचार पत्रों में <u>गारन्टर्सः</u> 1. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री पश्चिमः सीढ़िया तदोपरान्त फ्लैट नं0 313, उत्तरः खुला आकाश, दक्षिणः कोरिडोर प्रकाशित बनवारी लाल, निवासीः तहसील रोड, तदोपरान्त फ्लैट 304 तिथि 08.09.2019) 3. भूमि -आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल चौपला, गढ़ मुक्तेश्वर, मेरठ-245205 2. श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री राम (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 149. खसरा नं0 278K का भाग. 278Mi. 279. 280, 277, अपूर् प्रीन पार्क कॅलिनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगन दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 162.57 वर्ग मीटर एवं सीमार्वे:-पूर्व: 25/ अवतार, निवासीः मकान नं0 52, पट्टी हुलसराय 1, तहसील स्याना, जिला 7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 25 फीट/अन्य सम्पत्ति, उत्तरः 70 फीट/ अन्य सम्पत्ति

बुलन्दशहर, उ०प्र0 दक्षिणः 70 फीट/प्लॉट नं0 150 रू0 22.00 4. भूमि –आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 150, खसरा नं0 278K का भाग, 278Mi, 279, 280, 277, अप्पू ग्रीन पार्क कॉलोनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगना वौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 162.57 वर्ग मीटर एवं सीमार्थे:-पूर्वः 25/7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 25 फीट/अन्य प्लॉट, उत्तरः 70 फीट/ प्लॉट नं0 149, दक्षिणः 70 फीट/प्लॉट नं0 151 5. भूमि -आवासीय प्लॉट संबंधित स्वामी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 151, खसरा नं0 278K का भाग, रू० 22.00

278Mi, 279, 280, 277, अप्पू ग्रीन पार्क कॉलोनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगर्ना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 162.57 वर्ग मीटर, एवं सीमार्ये:-पूर्वः 25 7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 25 फीट/अन्य प्लॉट, उत्तरः 70 फीट/ प्लॉट नं0 150, दक्षिणः 70 फीट/प्लॉट नं0 152 6. भूमि एवं भवन- आवासीय मकान (अपूर्ण) संबंधित स्वामी श्री विकास कुमार पुत्र श्री राम अवतार (सम्पत्ति स्वामी) स्थित प्लॉट नं0 27, खसरा नं0 266, 267, 268, 269, 270 एवं 271, अप्पू ग्रीन पार्क कॉलोनी, एनएच-58, रेवेन्यू ग्राम जमुल्लापुर, परगना वैराला तहसील सरधना जिला मेरठ, माप 111.48 वर्ग मीटर एवं सीमायें:-पूर्वः 20 फीट/7.5 मीटर रोड, पश्चिमः 20 फीट/प्लॉट नं0 43, उत्तरः 60 फीट/प्लॉट नं0 26, दक्षिणः 60 ন০ 22.00 फीट ∕प्लॉट नं0 28 रू० 24.00 आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्राoिलo (सम्पित्त स्वामी) स्थित फ्लैट नं0 ए-57/बी, द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0

252Mi का माग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर। सीमायें:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-80∕बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-58∕बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-57/बी (द्वितीय तल) ₹0 24.00 8. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफाटेक प्राoलिo (सम्पत्ति स्वामी) स्थित फ्लैट नं**o ए-58/बी**, द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नंo 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर सीमार्ये:-पूर्व: फ्लैट नं0 ए-79/बी (द्वितीय तल), पश्चिम: आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-59/बी (द्वितीय तल)

दक्षिणः ए-57/बी (द्वितीय तल) 9. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्राठलिठ (सम्पत्ति स्वामी) स्थित फ्लैट नंठ ए-59/बी, द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नंठ 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर। सीमावें:-पूर्व: फ्लैट नंठ ए-78/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पाकिंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नंठ ए-60/बी (द्वितीय तल), ₹60 24.00

दक्षिणः ए-58/बी (द्वितीय तल) 10. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित फ्लैट नं0 ए-60/बी, द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0 ₹60 24.00 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सूरधना, जिला मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.08 वर्ग मीटर।

सीमार्ये:-पूर्व: फ्लैट नं0 ए-77/बी (द्वितीय तल), पश्चिम: आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तर: फ्लैट नं0 ए-61/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-59/बी (द्वितीय तल) ₹60 24.00 11. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व भैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए−63∕बी,** द्वितीय तल, प्लॉट का खसरा नं0

252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरघना, जिला मेरठ। सीमार्थे:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-74/बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-64/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-62/बी (द्वितीय तल) 12. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा०लि० (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं० ए-66/बी,** (द्वितीय तल), प्लॉट का खसरा नं० ₹्0 24.00 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेडा, परगना दौराला, तहसील सरघना, जिला मेरठ। सीमार्ये:-पूर्वः फ्लैट नं0 ए-71 /बी (द्वितीय तल), पश्चिमः आम पार्किंग तदोपरान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरः फ्लैट नं0 ए-67/बी (द्वितीय तल), दक्षिणः ए-65/बी (द्वितीय तल)

13. आवासीय फ्लैट संबंधित स्वामित्व मैसर्स वरदे इंफ्राटेक प्रा0लि0 (सम्पत्ति स्वामी) स्थित **फ्लैट नं0 ए-70/बी,** (ब्रितीय तल), प्लॉट का खसरा नं0 ₹्त0 24.00 252Mi का भाग, उदय सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू ग्राम मुकर्राबपुर पल्हेड़ा, परगना दौराला, तहसील सरथना, जिला मेरठ। सीमार्येः-पूर्वः आम पार्किंग तदो परान्त 12 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिमः फ्लैट नें0 ए-67/बी (हितीय तल), उत्तरः फ्लैट नं0 ए-69/बी (हितीय तल), दक्षिणः ए-71/बी (हितीय तल) 14. भूमि-आवासीय खुला प्लॉट, खसरा नं0 1773, 0.2027, 2/3 हेक्टेयर, बाहरी रकबा 4.5400 हेक्टयर, सम्पत्ति स्वामी श्री विकास अग्रवाल

पुत्र श्री राम अवतार (सम्पत्ति स्वामी) स्थित रेवेन्यू ग्राम दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ। सीमार्ये:-पूर्वः श्री सतपाल सिंह की कृषि भूमि,

पॅश्चिमः मेन एच.एच-58, उत्तरः तदोपरान्त श्री आरिविन्द की कृषि भूमि, दक्षिणः श्री अनुज की कृषि भूमि जबकि आपने मेरे ⁄बैंक द्वारा धारा 13(2) के तहत उपरिवर्णित दिनांक की माँग सूचना के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद आप की तरफ बकाया राशि का भुगतान करने में चूक की है। उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरिवर्णित सम्पत्तियों का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त किया जा चुका है। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किए जाने के बावजूद आपने आन्म्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव निम्नवर्णित सम्पत्ति को इस सूचना की तिथि से 30 दिन के बाद ई-निलामी द्वारा बेचा जाना आवश्यक हो गया है। नीलामी की तिथि और समय तथा सेवा प्रदाता का विवरण बिक़ी सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा जो अलग से जाएंगी और सम्पत्ति उच्चतम बोली प्रदाता को बेची जाएगी।

र्जूकि यह सम्पत्ति प्राइवेट बिक्री द्वारा भी अथवा जनता से कोटेशन आमंत्रित करने द्वारा भी, हम दोनों को स्वीकार्य नियमों एवं शतों के अधीन बेची जा सकती है। यदि आपके पास प्राइवेट बिक्री य जनता से कोटेशन आमंत्रित करने द्वारा सम्पत्ति बेचने का कोई प्रस्ताव है, उसकी सूचना सुश्रको इस पत्र ∕सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर दी जा सकती है। ऐसा करने में असफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा मैं ऊपर वर्णित अनुसार निविदा आमंत्रण ∕सार्वजनिक नीलामी ∕ई-नीलामी ∕प्राइवेट ट्रीटी द्वारा सम्पत्ति/मशीनरी की बिक्री की कार्यवाही आरम्भ कर दूंगा। इसके अतिरिक्त कृपया सूचित हो कि यदि आप मांग सूचना में विनिर्दिष्ट देय राशि का मुगतान उस पर अनुवर्ती व्याज तथा बैंक द्वारा वहन की गई लागत एवं खर्चों सहित उपरोक्तानुसार बिक्री की तिथि को अथवा उससे पहले कर देते हैं, तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार विमोचन का अधिकार प्राप्त है) दिनांकः 01.11.2019 स्थानः मेरठ मुख्य प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड सीआईएनः L55101DL1980PLC011037

पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066 फोनः 011 66771225 / 1226, फैक्सः 011 26791033 ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com वेबसाईटः www.asianhotelsnorth.com सचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 47(1)(ए) के अनुपालन में एतद् द्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 12 नवम्बर 2019 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में. अन्य विषयों के अतिरिक्त 30 सितम्बर 2019 को समाप्त द्वितीय तिमाही / अर्द्ध वर्ष के एकल एवं समेकित अनुअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु आयोजित की जाएगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि, सूचीकरण विनियम के विनियम 47(2) के अनुपालन में, उपरोक्त कथित वित्तीय परिणाम कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट तथा बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड के लिए दिनेश कुमार जैन वाईस प्रेसिडेन्ट (कॉर्पोरेट मामलों) स्थान : नई दिल्ली एवं कम्पनी सचिव

स. संख्या एफसीएस - 6224

दिनांक : 31 अक्टूबर, 2019



इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती इक्विटास फाइनेंस लि.)

पंजीकृत कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, 4वां तल, फेज–2

अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडू-600 002 # 044-42995000, 044-42995050 मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 की घारा 13(2) के तहत सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदार/ओं ने इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ईएचएफएल)/ इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल) / इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लि. ऋण प्राप्त किए हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण मद्रास द्वारा अपने आदेश दिनांकित 06.06.2016 द्वारा सीपी नं. 2016 की 119 से 121 में संस्वीकृत समामेलन की योजना के अनुसार मेसर्स इक्विटास हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड में समामेलित हो गई है। उक्त समामेलन के कारण मेसर्स इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सभी अधिकार और देयताएँ मेसर्स इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड में निहित हो गए हैं। यह भी आपको सूचित किया जाता है कि कंपनी पंजीयक, चेन्नई द्वारा जारी प्रमाणपत्र के तहत मेसर्स इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड का नाम मेसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लि. को लाइसेंस जारी किया। उक्त कर्जदार/ओं के खाते में अपने ऋण की बराबर मासिक किस्तों (ईएमआई) का भूगतान करने में असफल रहने के कारण उनके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति वर्गीकृत किया गया है। तारीख को कर्जदार/ओं द्वारा ईएसएफबी को देय ऋण और बकाया राशि का विवरण नीचे वर्णित है। कर्जदार(ओं) और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने ईएसएफबी, प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदार(ऑ) के विरुद्ध कारवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार अपने नाम के लिए वर्णित राशि बकाया राशि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान करने में असफल रहा तो अधोहस्ताक्षरी संपत्ति / ओं का कब्जा लेने और उन्हें बेचने सहित सरफासी अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के तहत प्रत्यामृति ऋणदाता के पास उपलब्ध किसी या सभी शक्तियो

का प्रयोग करना। सर्व सावारण का नाव वागरा सवारा / जा के साथ कोई लगदन ने करने का सलाह दो जाता है।					
कर्जदार(ओं) / जमानती(ओं)	मांग सूचना	प्रत्यामृत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण			
के नाम	की तारीख	, ,			
(शाखा का नाम)	और राशि				
शाखा ः जींद	17.09.2019	उप-पंजीयक जिला जींद और जिला पंजीकरण जींद में स्थित रिहायशी संपत्ति			
एल.नं. SEIBJND0181242	और	जोकि मकान नं. 2827ए ईडबल्यूएस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तहसील एवं जिला			
कर्जदारः	ক 404509 ∕ −	जींद (हरियाणा) में है, 34.875 वर्ग गज में वर्तमान एवं भविष्य में बनी हुई			
1. श्री खुशी राम		अधिरचना, के गैर—कृषि सम्पत्ति के समस्त भाग व खंड। उत्तर : मकान नं. 2828,			
सह–कर्जदारः		दक्षिण : मकान नं. 2827, पूर्वः रास्ता, कॉलोनी, पश्चिम : मकान नं. 2822 ए, मापन			
1. श्री विक्की		34.875 वर्ग गज			
दिनांक : 31.10.2019 स्थान : हरियाणा		प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लि.			